

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 30.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।



उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नत होने पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्टार लगाकर दी गयी शुभकामनायें।

आज दिनांक 30.12.2022 को महोबा पुलिस में 30नि0 पद पर तैनात 30नि0 लाखन सिंह व 30नि0 यशवन्त सिंह को प्रोन्नति देकर निरीक्षक बनाया गया है, इस उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा इन प्रोन्नत उपनिरीक्षकों को पुलिस कार्यालय में प्रमोशन पाये जाने पर उनके कंधे में स्टार लगाया गया साथ ही पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा दोनो उपनिरीक्षकों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना के साथ मिष्ठान खिलाते हुये खुशियों को साझा किया गया ।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।



जनपदीय SOG व थाना पनवाड़ी की संयुक्त पुलिस टीम ने चोरी के वाछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की सामग्री, 01 किलो 200 ग्राम गांजा व अवैध तमंचा/कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त पिकअप की गयी बरामद ।

दिनांक 28.12.2022 को थाना पनवाड़ी में वादी मैयादीन प्रजापति पुत्र हजारी लाल निवासी कस्बा पनवाड़ी ने थानाहाजा में एक शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि दिनांक 16.12.2022 को प्रार्थी के खेत में बंधी हुये 05 भैंसे व 01 भैंस लक्ष्मीप्रसाद पुत्र हजारी प्रसाद की थी जिसको किसी अज्ञात के द्वारा चोरी कर ली गयी है, इस सूचना पर दिनांक 28.12.2022 को थाना पनवाड़ी में मु0अ0सं0 252/22 धारा 379 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा घटना का संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी व थाना पनवाड़ी पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभावी सुरागरसी पतारसी की गयी।

जिसके क्रम में आज दिनांक 30.12.2022 को घटना के अनावरण हेतु गठित संयुक्त पुलिस टीम ने सफलता प्राप्त करते हुये मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण क्रमशः 1. राहुल सिंह परिहार पुत्र राजेन्द्र सिंह परिहार निवासी नया रामनगर उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन 2. जितेन्द्र राजपूत पुत्र स्व मलखान सिंह निवासी पीली कोठी उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन 3. निजाम पुत्र

सराफत खां निवासी अजनारी थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन को मुखविर की सटीक सूचना पर नकरा बैरियर हमीरपुर महोबा बोर्डर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिनकी जामातलाशी से अभियुक्त राहुल सिंह परिहार के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिस पर मु.अ.सं. 254/2022 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया व अभियुक्त जितेन्द्र राजपूत के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व



315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिस पर मु.अ.सं. 255/2022 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त निजाम के कब्जे से 01कि. 200 ग्राम सूखा नाजायज गांजा बरामद हुआ जिस पर मु.अ.सं. 256/2022 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगणों के कब्जे से मु.अ.स 252/2022 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी गयी

भैंसों के विक्रिय के 4500 रुपये व 01 नग पड़िया व 03 साकड़े व 01 अदद पगहा तथा चोरी की भैंसो को परिवहन करने मे प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप संख्या **UP92AT3747** बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण –

1. राहुल सिंह परिहार पुत्र राजेन्द्र सिंह परिहार निवासी नया रामनगर उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन,
2. जितेन्द्र राजपूत पुत्र स्व मलखान सिंह निवासी पीली कोठी उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन,
3. निजाम पुत्र सराफत खां निवासी अजनारी थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

विवरण बरामदगी –

1. दो अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
2. एक किलो दो सौ ग्राम अबैध गांजा बरामद होना
3. 4500 रुपये नगद भैंसो की विक्रिय का व 03 साकड़े एक अदद पगहा तथा एक नग पड़िया व भैंसों की चोरी मे प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप संख्या **UP92AT3747** बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली टीम प्रथम -

1. उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. उ0नि0 कम्बोद सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. उ0नि0 रवि कुमार सिंह चौकी प्रभारी नगाराघाट थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
4. कां0 राहुल कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
5. कां0 राजकिरण थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
6. कां0 विजय कुमार, पनवाड़ी जनपद महोबा।

जनपदीय SOG टीम –

1. निरीक्षक नन्हेलाल यादव प्रभारी स्वाॅट टीम
2. उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी सर्विलांस सेल
3. उ0नि0 ब्रजेन्द्र सिंह स्वाॅट टीम
4. कां नरेन्द्र कुमार स्वाॅट टीम
5. कां रंजीत सिंह स्वाॅट टीम
6. कां निर्भय सिंह स्वाॅट टीम
7. कां अंशुल दुबे सर्विलांस सेल

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कबरई का किया गया अर्द्धवार्षिक निरीक्षण, कानून-व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में दिये आवश्यक निर्देश -

आज दिनांक 30.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम द्वारा थाना कबरई का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्पडेस्क, अपराध रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, सीसीटीएनएस कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया, रजिस्ट्रों को अद्यावधिक रखने हेतु व पाई गई कमियों को दुरुस्त करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात बन्दी गृह, मालखाना, शस्त्रागार इत्यादि का निरीक्षण किया गया व मिशन शक्ति योजना के क्रम में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का गहन निरीक्षण करते हुए रिकार्ड रजिस्टर व प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा लावारिस वाहनों एवं मालों का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने व थाने की साफ-सफाई उच्चकोटि की बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात थाना कबरई में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी व सम्बन्धित को निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बिनोद कुमार, स्टेनो अपर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी सहित थाना कबरई में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



REDMI NOTE 9 PRO
THE SAHU

थाना खरेला पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 30.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 शिवकुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त धीरेन्द्र पुत्र जगत सिंह उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम पुन्निया थाना खरेला जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0स0 108/22 धारा 363/366ए/376 भादवि व 4(1) पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को थानाक्षेत्र के धवारी तिराहा कस्बा खरेला से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव
2. हो0गा0 हिमांशु सक्सेना

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

धीरेन्द्र सिंह पुत्र जगत सिंह उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम पुन्निया थाना खरेला जनपद महोबा



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार जो पूर्व में अज्ञात में पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित प्रकाश में आया वाछित अभियुक्त निकला-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 30.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त 1. प्रमोद कुमार अहिरवार पुत्र शीतल अहिरवार नि0 ग्राम कुंआ थाना खरेला जिला महोबा उम्र 25 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज के साथ थानाक्षेत्र के ग्राम बारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

नोट:- अभियुक्त प्रमोद कुमार अहिरवार थाना स्थानीय पर दिनांक 29.12.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2022 धारा 354(ख)/504/506 भा0द0वि0 में दिनांक 30.12.2022 प्रकाश में आया अभियुक्त भी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरण –

1. उ0नि0 दिनेश कुमार यादव
2. उ0नि0 अजयपाल सिंह
3. हे0कां0 मो0 सरताज
4. कां0 चन्द्रकुमार भारती

अभियुक्त का विवरण –

प्रमोद कुमार अहिरवार पुत्र शीतल अहिरवार नि0 ग्राम कुंआ थाना खरेला जिला महोबा उम्र 25 वर्ष

बरामदगी- 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 30.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्येक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अजीतनारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त 1. वीरेन्द्र कुमार पुत्र धनीराम उम्र 59 वर्ष नि0 मु0 मानिक कस्बा व थाना खरेला जिला महोबा जिसके पास से एक झोले में 18 अदद क्वार्टर देशी शराब अवैध बरामद करते हुये थानाक्षेत्र के धवारी रोड वहद कस्बा खरेला से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 अजीतनारायण त्रिपाठी
2. का0 चन्दन सिंह

अभियुक्त का विवरण –

वीरेन्द्र कुमार पुत्र धनीराम उम्र 59 वर्ष नि0 मु0 मानिक कस्बा व थाना खरेला जिला महोबा

बरामद माल:- एक झोले में 18 अदद क्वार्टर देशी शराब (झूम) बरामद होना



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **30.12.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा आगामी नववर्ष पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आमजन से संवाद स्थापित कर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **150** वाहनो के ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस